

National Seminar on Emerging Issues Relating to Environmental Laws at ILS – March 30, 2018

Himachal Time

Law School inaugurates National Seminar on environment

DEHRADUN, MARCH 30 (HTNS)

National Seminar on 'Emerging Issues Relating to Environmental Laws: National Perspectives' was organized by ICFAL Law School today amidst the presence of globally renowned eminent personalities like Prof. (Dr.) Usha Tandon, Delhi University, Prof. (Dr.) MZM Nomani, Aligarh Muslim University, Prof. (Dr.) S. K. Gupta, BHU, Prof. (Dr.) Yogesh Pratap Singh, NLU Odisha, Prof. (Dr.) Tabrez Ahmad, Director (CoLS), UPES inter alia.

The inaugural session of the seminar witnessed more than 300 participants from across the nation including all the leading National Law Universities and various law colleges in India. The National Seminar started with the instructions of the organizing secretary Alok Kumar and Avishek Raj, Asst. Prof., ICFAL Law School. The inaugural ceremony started in the morning in the presence of invited guests, members of academia, members of legal profession, research scholars, and law students from across the nation. The beginning of the ceremony was marked by the lighting of the lamp by the guests signifying the underlying object of the seminar – a gradual advancement from the darkness of ignorance to the brightness of knowledge. The lighting of the lamp was followed by the National Anthem. Prof. (Dr.) MZM Nomani, the key note speaker for the occasion, speaking for his chair glorified the historical movements and actions taken for the protection and growth of environment. Emphasising the need to inter-link Economic laws, Human Rights laws, and Environment laws, he also mentioned Dominique Mc Gold's theory of sustainable development, and how the same needs to be incorporated in today's scenario. He expressed how in his opinion the Indian Environmental laws can be broadly categorized in to three categories, namely, anti-pollution laws, recovery laws, and resource conservation laws, and implications thereof. Prof. (Dr.) Tabrez Ahmad, Guest of Honour for the occasion, started by expressing his concern over how New Delhi still tops the list of most polluted cities from across the globe.

He was followed by Prof. (Dr.) Yogesh Pratap Singh who expressed that environmental law is not a subject only for law students, lawyers, or legal academia members rather it's a subject of humanity. The ending of the inaugural session was marked by the presidential remarks by Vice Chancellor, IUD, Prof. (Dr.) Pawan K. Aggarwal followed by vote of thanks.

Garhwal Post

National Seminar on Environmental Laws begins at ICFAL Law School

By OUR STAFF REPORTER

DEHRADUN, 30 Apr: A National Seminar on 'Emerging Issues Relating to Environmental Laws: National Perspectives' organized by ICFAL Law School, The ICFAL University, is to be held from 30 to 31 March, was inaugurated today in the presence of Prof. (Dr.) Usha Tandon, Delhi University, Prof. (Dr.) MZM Nomani, Aligarh Muslim University, Prof. (Dr.) S. K. Gupta, BHU, Prof. (Dr.) Yogesh Pratap Singh, NLU Odisha, Prof. (Dr.) Tabrez Ahmad, Director (CoLS), UPES, etc.

The inaugural session of the seminar witnessed more than 300 participants from across the nation including all the leading National Law Universities and various law colleges in India. The National Seminar started with the instructions of the organizing secretary, Alok Kumar, and Avishek Raj, Assistant Professor, ICFAL Law School, Dehradun.

The beginning of the ceremony was marked by the lighting of the lamp by the guests, followed by the National Anthem.

Prof. (Dr.) MZM Nomani, the keynote speaker for the occasion, explained the historical movements and actions taken for the protection and growth of the environment. Emphasising the need to inter-link Economic laws, Human Rights laws, and Environment laws, he also mentioned, Dominique McGold's theory of sustainable development, and how the same needed to be incorporated in today's scenario. He said that in his opinion the Indian Environmental law could be broadly categorized in three categories, namely, anti-pollution law, recovery laws, and resource conservation laws, and implications thereof.

Prof. Ahmad, started by expressing his concern at the lack of support structure provided for the protection and growth of the environment. He then moved on to focus on the issue of wide-scale displacement of tribal population across the nation. He concluded by quoting some real-life examples and field observations on the scope and implications of environmental degradation.

He was followed by Prof. (Dr.) Yogesh Pratap Singh, who said that environmental law was not a subject only for law students, lawyers, or legal academia members; it was a subject for all humanity. He further appreciated the active role of judiciary in undertaking steps for environment protection, but expressed his concern at the lack of support structure provided for the protection and growth of the environment.

Prof. (Dr.) S. K. Gupta defined environment, and also expressed concern that no law school in the country had courses on Agricultural Laws. He praised the 'absolute liability' principle of PN Bhagwati, stating that it was the only principle in the world that had absolutely no exceptions. However, he went on to point out that no case had so far applied the said principle. He concluded by appreciating BHU's 'Cycle Club' app and proposing some practical approaches to energy and environmental conservation.

The Chief Guest, Prof. (Dr.) Usha Tandon, highlighted the 'absolute liability' principle and its successful implementation, differing from the concept of Prof. Gupta. She went on to discuss the emerging trends in environmental law, referring to her present research work. She described how even though environmental laws were roughly 40 years old, concerns for environment protection went back to more than a century and were of almost importance to the past, present, and future of humanity.

Presidential remarks were given by Vice Chancellor, IUD, Prof. (Dr.) Pawan K. Aggarwal followed by the vote of thanks.



पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागरूकता जरूरी

संवाद सहयोगी, विकासनगर: सेलाकुई इन्फार्मेशन विश्वविद्यालय में शुक्रवार से पर्यावरण कानून व पर्यावरण से संबंधित वर्तमान मसले विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत हुई। पहले दिन बतौर मुख्य वक्ता दिल्ली विश्व विद्यालय की प्रो. उषा टंडन ने कहा कि मानव ने अपनी मूर्खता के कारण अनेक समस्याएं पैदा की हैं। इनमें से पर्यावरण प्रदूषण अहम है। विधानसभा, संसद, न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, अखबार, टेलीविजन सब जगह पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण पर चर्चा होती है, फिर भी न तो कोई दोषी पाया जाता है न किसी को सजा मिलती

है। अनेकों स्थलों पर प्रदूषण का स्तर जरूर कम होता है, लेकिन पूर्णतया नियंत्रित नहीं हो पा रहा है तो हम किससे दोषी ठहराएं। उन्होंने कहा कि एक-दूसरे को दोष देने के बजाय पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागरूकता जरूरी है। कार्यशाला का उद्घाटन विश्व विद्यालय के कुलपति प्रो. पीके अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि प्रकृति का प्रत्येक कार्य व्यवस्थित एवं स्वचलित है। उसमें कहीं भी कोई दोष नहीं है। मानव पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता है। अपने नैतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास की उच्चतम

उपलब्धियां मानव उसी समय प्राप्त कर पाएगा जबकि वह प्राकृतिक संपदा का वितेकपूर्ण उपयोग करेगा। जनाधिक्य, भोगवाद की संस्कृति, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, युद्ध, परमाणु परीक्षण, औद्योगिक विकास आदि के कारण नई-नई पारिस्थितिकी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।

इन समस्याओं को उत्पन्न न होने देना मानव जाति का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। वायु प्रदूषण नियंत्रण कानून 1981 के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई की सजा के प्रावधानों के बावजूद राष्ट्र में सैकड़ों शहर के वायुमंडल पर प्रदूषण का स्तर क्रांतिक स्तर तक पहुंच चुका है

और पहुंच रहा है। जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1976 में अर्थदंड एवं कारावास के प्रावधानों के बावजूद पूरी की पूरी यमुना जहरयुक्त हो चुकी है। गंगा नदी हो चुकी है, प्लास्टिक वेस्ट को लेकर भी कानून में भारी अर्थदंड के बावजूद प्लास्टिक कचरे के ढेर बढ़ रहे हैं। नगरीय टोस अपशिष्ट कानून में भी कठोर दंड के बावजूद महानगरों में नदें कचरों के फहाड़ छोड़ें हो चुके हैं। लिहाजा पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक जन जागरूकता जरूरी है। इस दौरान प्रो. योगेश प्रताप सिंह, प्रो. तबरेज अहमद, आस्ट्रीक धरालियाल आदि मौजूद रहे।

इक्फाई में एनवायरमेंट पर सेमिनार

PIC: DAINIK JAGRAN I-NEXT

एनवायरमेंट इश्यू को लेकर 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार का आयोजन



एनवायरमेंटल इश्यूज पर खुलकर हुआ इटरेक्शन.

DEHRADUN(30 March): फ्राइडे को इक्फाई यूनिवर्सिटी में एनवायरमेंट इश्यू को लेकर 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया. सेमिनार का आयोजन विभिन्न संकाय द्वारा किया गया. इस मौके पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर चर्चा की गई.

300 स्टूडेंट्स ने किया पार्टिसिपेट

सेमिनार में चीफ गेस्ट के रूप में दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर उषा टंडन ने मौजूद रहीं. सेमिनार में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जफर महमूद नीमानी, बीएचयू से प्रोफेसर शैलेन्द्र कुमार गुप्ता, प्रोफेसर योगेश प्रताप

सिंह, प्रोफेसर तबरेज अहमद ने अपने विचार रखे. सेमिनार में देश के विभिन्न संस्थानों से आए 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल हुए. मुख्य वक्ता मोहम्मद नीमानी ने पर्यावरण और मानव अधिकार पर्यावरण विधियों, डीमिनिंग गोल्ड सिद्धान्त पर चर्चा की. उन्होंने पर्यावरण ज्यूरिस्ट्रेंस के बारे में बताया और मौजूदा हालात में पर्यावरण की समस्याओं का बोध कराया. तबरेज अहमद ने नई दिल्ली के प्रदूषण का जिक्र किया. इक्फाई विश्वविद्यालय के कुलपति पवन कुमार अग्रवाल ने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए युवाओं को आगे आना होगा.